



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2006/माघ 11, 1927

No. 100]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2006/MAGHA 11, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

(पोत परिवहन विभाग)

(Department of Shipping)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2006

New Delhi, the 31st January, 2006

का.आ. 115(अ).—दिनांक 7-9-2005 की असाधारण अधिसूचना सं. का. आ. 1243(अ) के द्वारा फारवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संघ सरकार एवं अन्य (2004 की रिट याचिका सं. 2947) के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 5-5-2005 के आदेशानुसार श्रीमती प्रतिमा उमरजी, प्रधान सचिव (सेवानिवृत्त) महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायाधिकरण तथा दिनांक 24 नवंबर, 2005 की असाधारण अधिसूचना सं. का.आ. 1644(अ) जिसके द्वारा न्यायाधिकरण का कार्यकाल 28 जनवरी, 2006 तक बढ़ाया गया था, के क्रम में केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण के कार्यकाल को एतद्वारा 31 मार्च, 2006 तक और बढ़ाती है। उल्लिखित अधिसूचना के साथ अनुबंधित सौंपे गए कृत्य तथा निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

S.O. 115(E).—In continuation of Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1243(E) dated 7-9-2005 constituting one Man Tribunal under the chairmanship of Smt. Pratima Umarji, Principal Secretary (Retired) in the matter of Forward Seaman's Union of India Versus Union of India and others (Writ Petition No. 2947 of 2004) in accordance with the Bombay High Court Order dated 5-5-2005 and S.O. 1644(E) dated 24th November, 2005 extending the term of the Tribunal upto 28th January, 2006, the Central Government grants further extension of time to the Tribunal upto 31st March, 2006. The Terms of Reference and other terms and conditions annexed to the said notification will remain unchanged.

[फा. सं. एस.आर.-11014/2/2005-एम.ए.]

[F.No. SR-11014/2/2005-MA]

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.